



विवरण 5: सकल राजकोषीय घाटे का नियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2005-06 (लेखा)				2006-07 (संशोधित अनुमान)				2007-08 (बजट अनुमान)			
	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.*	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.\$	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	64 (0.8)	7,662 (92.3)	574 (6.9)	8,300	54 (0.7)	10,212 (129.2)	689 (8.7)	7,904	36 (0.4)	12,869 (149.3)	5,115 (59.3)	8,621
2. अरुणाचल प्रदेश	-81 (-2.2)	2,084 (56.3)	1,697 (45.9)	3,700	752 (10.9)	5,751 (83.4)	394 (5.7)	6,898	-3,483 (-110.2)	6,389 (202.2)	254 (8.0)	3,159
3. छत्तीसगढ़	-1,381 (-325.0)	1,487 (349.8)	320 (75.2)	425	-1,678 (-117.6)	2,549 (178.6)	557 (39.0)	1,428	-1,801 (-115.0)	3,559 (227.1)	-191 (-12.2)	1,567
4. गोवा	22 (3.6)	580 (96.3)	1 (0.1)	603	35 (4.9)	670 (94.8)	2 (0.2)	707	8 (1.1)	726 (97.9)	8 (1.0)	742
5. गुजरात	399 (6.4)	6,959 (111.0)	-1,079 (-17.2)	6,270	-1,803 (-29.2)	8,292 (134.5)	-322 (-5.2)	6,165	-1,651 (-27.5)	7,433 (124.0)	212 (3.5)	5,994
6. हरियाणा	-1,213 (-424.8)	1,612 (564.4)	-113 (-39.6)	286	653 (100.8)	2,031 (313.4)	-2,036 (-314.2)	648	-1,149 (-70.0)	2,797 (170.5)	-8 (-0.5)	1,640
7. झारखंड	1,553 (31.6)	2,222 (45.2)	1,143 (23.2)	4,918	1,090 (20.7)	2,750 (52.3)	1,418 (27.0)	5,257	507 (11.3)	2,977 (66.6)	985 (22.0)	4,469
8. कर्नाटक	-2,311 (-62.7)	5,822 (157.9)	176 (4.8)	3,687	-2,832 (-52.7)	8,019 (149.3)	184 (3.4)	5,372	-1,627 (-25.8)	8,207 (130.2)	424 (6.7)	6,305
9. केरल	3,129 (74.8)	817 (19.5)	236 (5.6)	4,182	5,916 (71.0)	1,613 (19.4)	802 (9.6)	8,331	5,251 (70.7)	1,320 (17.8)	854 (11.5)	7,425
10. मध्य प्रदेश	-33 (-0.7)	6,623 (144.9)	-2,018 (-44.1)	4,572	-1,763 (-38.9)	5,172 (114.1)	1,124 (24.8)	4,533	-2,007 (-43.1)	5,881 (126.4)	780 (16.8)	4,655
11. महाराष्ट्र	3,842 (21.8)	10,078 (57.2)	3,710 (21.0)	17,630	3,193 (20.4)	10,516 (67.3)	1,911 (12.2)	15,620	-511 (-4.6)	10,690 (95.8)	978 (8.8)	11,158
12. उड़ीसा	-481 (-174.0)	1,038 (375.5)	-280 (-101.4)	276	-748 (-81.2)	1,625 (176.4)	44 (4.7)	921	-1,046 (-102.0)	1,914 (186.7)	157 (15.3)	1,025
13. पंजाब	1,242 (46.8)	1,517 (57.1)	-103 (-3.9)	2,656	2,191 (39.4)	3,287 (59.0)	89 (1.6)	5,567	1,839 (30.9)	4,174 (70.1)	-58 (-1.0)	5,956
14. राजस्थान	660 (12.8)	4,294 (83.4)	197 (3.8)	5,150	-96 (-1.9)	5,292 (105.8)	-192 (-3.8)	5,003	-215 (-4.0)	5,307 (99.7)	229 (4.3)	5,322
15. तमिलनाडु	-1,951 (-86.7)	4,055 (180.2)	147 (6.5)	2,251	247 (3.7)	6,388 (96.6)	-20 (-0.3)	6,614	101 (1.3)	7,861 (100.8)	-162 (-2.1)	7,801
16. उत्तर प्रदेश	1,268 (12.6)	8,711 (86.4)	99 (1.0)	10,078	-3,359 (-30.3)	14,093 (127.1)	355 (3.2)	11,090	-6,146 (-49.2)	18,430 (147.6)	201 (1.6)	12,485
17. प.बंगाल	7,391 (77.0)	1,653 (17.2)	557 (5.8)	9,601	8,420 (71.1)	2,152 (18.2)	1,264 (10.7)	11,836	7,168 (62.4)	2,720 (23.7)	1,595 (13.9)	11,484



विवरण 5: सकल राजकोषीय घाटे का नियोजन (समाप्त)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06 (लेखा)				2006-07 (संशोधित अनुमान)				2007-08 (बजट अनुमान)			
	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.*	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.\$	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	-182 (-71.0)	438 (171.0)	- (0.0)	256	-420 (-162.8)	675 (261.5)	3 (1.3)	258	-163 (-116.0)	301 (214.3)	2 (1.7)	140
2. असम	-1,509 (424.3)	1,085 (-305.1)	68 (-19.1)	-356	630 (17.3)	2,914 (79.9)	105 (2.9)	3,649	-897 (-43.4)	2,849 (138.0)	113 (5.5)	2,065
3. हिमाचल प्रदेश	-92 (-12.8)	821 (113.9)	-8 (-1.1)	720	54 (4.9)	1,066 (96.2)	-11 (-1.0)	1,109	250 (18.5)	1,098 (81.1)	6 (0.5)	1,355
4. जम्मू और कश्मीर	-1,816 (-114.4)	3,362 (211.7)	42 (2.7)	1,588	-1,914 (-131.0)	3,330 (227.9)	47 (3.2)	1,461	-2,789 (-136.9)	4,769 (234.1)	59 (2.9)	2,037
5. मणिपुर	-404 (-149.1)	616 (227.0)	60 (22.1)	271	-776 (-340.7)	941 (412.9)	63 (27.8)	228	-404 (-381.2)	498 (469.5)	12 (11.7)	106
6. मेघालय	-72 (-40.5)	259 (144.9)	-8 (-4.4)	179	-340 (-395.5)	401 (466.5)	25 (29.0)	86	-510 (-617.5)	578 (700.1)	14 (17.4)	83
7. मिजोरम	-66 (-16.5)	451 (113.7)	11 (2.8)	397	-176 (-61.2)	482 (167.3)	-18 (-6.2)	288	-163 (-143.3)	289 (254.0)	-12 (-10.7)	114
8. नागालैंड	-207 (-67.4)	518 (169.0)	-5 (-1.6)	306	-407 (-103.8)	798 (203.7)	- (0.0)	392	-605 (-257.4)	838 (356.1)	3 (1.3)	235
9. सिक्किम	-197 (-132.2)	346 (232.3)	- (0.0)	149	-449 (-222.8)	651 (323.1)	-1 (-0.3)	202	-384 (-155.0)	633 (255.2)	- (0.0)	248
10. त्रिपुरा	-633 (-574.4)	744 (675.8)	-2 (-1.4)	110	-548 (-116.3)	1,018 (216.2)	1 (0.1)	471	-640 (-94.9)	1,312 (194.8)	1 (0.2)	674
11. उत्तराखंड	74 (3.9)	1,705 (90.8)	99 (5.3)	1,878	-358 (-19.1)	2,254 (120.0)	-18 (-1.0)	1,878	-944 (-64.6)	2,377 (162.8)	27 (1.8)	1,460
सभी राज्य	7,013 (7.8)	77,559 (86.1)	5,521 (6.1)	90,084	5,566 (4.9)	1,04,942 (92.1)	6,459 (5.7)	1,13,913	-11,973 (-11.1)	1,18,796 (109.7)	11,602 (10.7)	1,08,323
<i>जापन मद :</i>												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	-4,328 (1,765.5)	1,502 (612.9)	2,581 (1,052.7)	-245	-4,266 (532.4)	1,986 (247.8)	3,082 (384.6)	801	-5,316 (305.6)	3,435 (197.4)	3,621 (208.1)	1,740
2. पुदुचेरी	-7 (-2.7)	289 (103.5)	-2 (-0.8)	279	135 (27.0)	370 (74.1)	-5 (-1.1)	500	190 (24.7)	581 (75.6)	-3 (-0.3)	769

सराधा : सकल राजकोषीय घाटा

'-' : नगण्य/शून्य

* : वर्ष 2005-06 के लिए गुजरात तथा राजस्थान सरकार का 8 करोड़ रुपए तथा 1 करोड़ रुपए क्रमशः का सकल राजकोषीय घाटा ऋणेंतर पूँजी प्राप्तियां के लिए समायोजित किया गया हैं।

\$: वर्ष 2006-07 के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा जम्मू और कश्मीर सरकार का 3,050 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तथा 2 करोड़ रुपए क्रमशः का सकल राजकोषीय घाटा ऋणेंतर पूँजी प्राप्तियां के लिए समायोजित किया गया हैं।

: वर्ष 2007-08 के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा जम्मू और कश्मीर सरकार का 9,400 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए तथा 2 करोड़ रुपए क्रमशः का सकल राजकोषीय घाटा ऋणेंतर पूँजी प्राप्तियां के लिए समायोजित किया गया हैं।

टिप्पणी : 1. ऋणात्मक (-) चिह्न घाटा संकेतक में अधिशेष दर्शाता है।

2. कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत दर्शाते हैं।

3. झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2005-6 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।